



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16—फरवरी 22, 2008 (माघ 27, 1929)
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16—FEBRUARY 22, 2008 (MAGHA 27, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(थल सेना शाखा)

वायु सेना मुख्यालय

सं. 83, दिनांक 30 जनवरी 2008.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2008

(स्थायी थल सेना)

(सेना चिकित्सा कोर)

नायब सूबेदार (एक्सरे असिस्टेंट)

सं. 82, दिनांक 29 जनवरी 2008.--राष्ट्रपति, सहर्ष श्री सुधीर रंजन महापात्र, सहायक को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली, 2001 के अधीन स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (ग्रुप 'ख' राजपत्रित, वेतनमान 6,500-200-10,500/- रुपये) के पद पर दिनांक 20 अप्रैल 2007 से 23 अगस्त 2007 तक अथवा सेवा निवृत्त होने तक अथवा नियमित पदधारी, उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

हवलदार धरम पाल (सं. 13957726एक्स अब जेसी-695751एफ), 02 दिसम्बर 2006

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जय प्रकाश यादव (सं. 13953969एल अब जेसी-695891एन), 09 मार्च 2007

हवलदार रवीन्द्र कुमार सिंह (सं. 13954017एक्स अब जेसी-695868ए), 24 फरवरी 2007

हवलदार जंगम पदमा राव (सं. 13955789एफ अब जेसी-695843एन), 31 जनवरी 2007

2. यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकती है।

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हवलदार मोहनन पी एम (सं. 13956038एम अब जेसी-695892डब्ल्यू), 31 जनवरी 2007

हवलदार तेजपाल सिंह (सं. 13956586के अब जेसी-695844डब्ल्यू), 31 जनवरी 2007

हवलदार राज कुमार (सं. 13955503एफ अब जेसी-695845वाई), 29 जनवरी 2007

हवलदार सुकान्ता कुमार दास (सं. 13957607एफ अब जेसी-695846एफ), 07 फरवरी 2007

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 13957815डब्ल्यू अब जेसी-695847के), 29 जनवरी 2007

हवलदार महेश्वर स्वैन (सं. 13957811ए अब जेसी-695848एम), 03 फरवरी 2007

हवलदार पी एस सजीथ कुमार (सं. 13957894डब्ल्यू अब जेसी-695869एच), 28 फरवरी 2007

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 13957966पी अब जेसी-695870एक्स), 12 फरवरी 2007

हवलदार माधवा नन्द (सं. 13957890ए अब जेसी-695849पी), 31 जनवरी 2007

हवलदार शकील अहमद शाह (सं. 13958586एच अब जेसी-695850के), 31 जनवरी 2007

हवलदार थामस कुट्टी के (सं. 13958848एन अब जेसी-695851एम), 23 जनवरी 2007

हवलदार मोहन सिंह (सं. 13959542एक्स अब जेसी-695852पी), 02 फरवरी 2007

हवलदार पी जगैया (सं. 13959536के अब जेसी-695871ए), 13 फरवरी 2007

हवलदार ब्रह्मा नन्द (सं. 13956227डब्ल्यू अब जेसी-695853एक्स), 31 जनवरी 2007

हवलदार तुषेन हजारीका (सं. 13957851एफ अब जेसी-695872एच), 26 फरवरी 2007

हवलदार अमर सिंह (सं. 13957952पी अब जेसी-695873एल), 24 फरवरी 2007

हवलदार जयवीर (सं. 13958134ए अब जेसी-695874एन), 11 फरवरी 2007

हवलदार गुशाई सिंह (सं. 13959390एफ अब जेसी-695854ए), 27 जनवरी 2007

हवलदार सथोस पी (सं. 13959879ए अब जेसी-695855एच), 29 जनवरी 2007

हवलदार होशियार सिंह (सं. 13961139के अब जेसी-695856एल), 25 फरवरी 2007

हवलदार हरी सिंह (सं. 13961464के अब जेसी-695875एन), 28 फरवरी 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार उपेन्द्र शर्मा (सं. 13956999एन अब जेसी-695876वाई), 10 फरवरी 2007

हवलदार समीर दत्ता (सं. 13961859एल अब जेसी-695893वाई), 13 मार्च 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सी उपेन्द्र (सं. 13962631एफ अब जेसी-695994एफ), 09 मार्च 2007

हवलदार जी सेकर (सं. 13963604के अब जेसी-695884एक्स), 06 मार्च 2007

हवलदार किश कुमार (सं. 13963723ए अब जेसी-695919एच), 28 मार्च 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राजकुमार एन के (सं. 13964671एफ अब जेसी-695956डब्ल्यू), 23 अप्रैल 2007

हवलदार उत्तम कुमार हल्दर (सं. 13965142एफ अब जेसी-695929एम), 02 अप्रैल 2007

हवलदार चलवाड प्रभाकर नारायण राव (सं. 13965425एच अब जेसी-695957वाई), 19 अप्रैल 2007

हवलदार उमेश शर्मा (सं. 13965477वाई अब जेसी-695930एफ), 07 अप्रैल 2007

हवलदार सुभाष चन्द्रा (सं. 13567981के अब जेसी-695931के), 03 अप्रैल 2007

हवलदार जादव गनपती पांडुरंग (सं. 13965501के अब जेसी-695932एन), 02 अप्रैल 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सुखबीर सिंह (सं. 13965557डब्ल्यू अब जेसी-695958एफ), 01 मई 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राजन ए (सं. 13965624डब्ल्यू अब जेसी-695960वाई), 01 जून 2007

हवलदार मनोज कुमार (सं. 13965781एच अब जेसी-695961एफ), 01 जून 2007

हवलदार ए पांडियन (सं. 13966544एल अब जेसी-695978पी), 06 जून 2007

हवलदार मुरुगेसन के (सं. 13966582एफ अब जेसी-695979एक्स), 06 जुलाई 2007

हवलदार सिंदे दादासाहेब निवरुत्ती (सं. 13966686एच अब जेसी-695980एम), 05 जून 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)

हवलदार पेसकार सिंह यादव (सं. 13965134एच अब जेसी-695993के), 20 जुलाई 2007

हवलदार सुरेश चन्द्र गुप्ता (सं. 13966722एच अब जेसी-695986एन), 01 जुलाई 2007

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 13966842एफ अब जेसी-695994एन), 18 जुलाई 2007

हवलदार के रंजीत सिंह (सं. 13967094एल अब जेसी-695987डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007

हवलदार श्री प्रसाद मेहता (सं. 13967170एम अब जेसी-695988वाई), 04 जुलाई 2007

हवलदार एस रघुनाथ कुमार (सं. 13967535डब्ल्यू अब जेसी-696008वाई), 31 जुलाई 2007

हवलदार स्नेहसीस सिन्हा राय (सं. 13967829के अब जेसी-695989एफ), 02 जुलाई 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रघुबीर सिंह रावत (सं. 13967830वाई अब जेसी-696010डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007

हवलदार बुद्धादेव दहल छेत्री (सं. 13968174पी अब जेसी-696009एफ), 01 अगस्त 2007

हवलदार इतैह एन (सं. 13968462एफ अब जेसी-696027के), 01 अगस्त 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

हवलदार गोलाम जिकरिया (सं. 13968491डब्ल्यू अब जेसी-696028एम), 07 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

आर. सी. रतुड़ी
उप सचिव

सं. 84, दिनांक 29 जनवरी 2008.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेंट

सबस्टैंटिव सूबेदार मेजर (ए आई जी) के पद में

सूबेदार मरीनल कान्ती सिन्हा राय (जेसी-258912एन), 07 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *

सबस्टैंटिव सूबेदार मेजर (एफ जी ए) के पद में

सूबेदार वजीर एन (जेसी-258518एच), 19 अक्टूबर 2007/01 सितम्बर 2007 *

सूबेदार गुरचरन सिंह (जेसी-256985एफ), 23 अक्टूबर 2007/01 सितम्बर 2007 *

सूबेदार धर्मवीर सिंह हुड्डेय (जेसी-260639एच), 07 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *

सूबेदार काशी नाथ सिंह (जेसी-260764एम), 01 नवम्बर 2007

सूबेदार निश्रीराम घोष (जेसी-258965एम), 01 नवम्बर 2007

सबस्टैंटिव सूबेदार (ए आई जी) के पद में

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद यादव (जेसी-264444पी), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-265214एन), 01 जून 2007

नायब सूबेदार सरदार सिंह (जेसी-262575एफ), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार एम शानमुगम (जेसी-266082एक्स), 07 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007 *

नायब सूबेदार अवदेश कुमार (जेसी-265620एन), 13 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-266087डब्ल्यू), 10 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *

नायब सूबेदार डी कांरीकलन (जेसी-262580एम), 03 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *

सबस्टैंटिव सूबेदार (जी डी) के पद में

नायब सूबेदार बच्चा प्रसाद सिंह (जेसी-267614वाई), 23 मार्च 2007/21 अगस्त 2006 *

नायब सूबेदार योगेश कुमार (जेसी-266426एल), 20 अप्रैल 2007/12 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार हिमल सिंह (जेसी-267233एक्स), 14 मई 2007/28 अगस्त 2006 *

नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जेसी-266327एच), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार सेल्वादासन पी (जेसी-266782एल), 02 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार कृष्ण लाल (जेसी-266613के), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार कोला नागेश्वरा राव (जेसी-266459डब्ल्यू), 17 अक्टूबर 2007/01 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार देगलरा विजय कुमार (जेसी-267464एन), 01 मई 2007

नायब सूबेदार सूरजन सिंह (जेसी-266380एन), 01 मई 2007

नायब सूबेदार के सेल्वा कुमार (जेसी-266452एम), 01 मई 2007

नायब सूबेदार हरबन्स सिंह (जेसी-267244के), 01 मई 2007

नायब सूबेदार गुरमेल सिंह (जेसी-267170ए), 03 मई 2007/08 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार मन बहादुर खडका (जेसी-268402ए), 10 नवम्बर 2007/10 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार आनंद प्रकाश (जेसी-268739एच), 19 अक्टूबर 2007/05 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार जगदीश बहादुर सिंह (जेसी-268119एम), 07 नवम्बर 2007/31 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-267466वाई), 05 अक्टूबर 2007/ 01 अक्टूबर 2007 *

नायब सूबेदार जगत बहादुर सिंह (जेसी-268863के), 10 दिसम्बर 2007/09 अक्टूबर 2007 *

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी/एस के टी) के पद में

हवलदार (क्लर्क) कल्याण घोष (सं. 15118129एक्स अब जेसी-270557एन), 01 जून 2007

हवलदार (क्लर्क) गोविन्द चन्द्र नायक (सं. 15118121एल अब जेसी-270415डब्ल्यू), 01 जून 2007

हवलदार (क्लर्क) सुशान्त कुमार पांडा (सं. 15118141वाई अब जेसी-270558डब्ल्यू), 01 जून 2007

हवलदार (क्लर्क) मनोज टी एस (सं. 15118192एम अब जेसी-270559वाई), 01 जून 2007

हवलदार (क्लर्क) प्रेम सिंह (सं. 14382030डब्ल्यू अब जेसी-270560एन), 01 जून 2007

हवलदार (क्लर्क) जे एन सिंह यादव (सं. 14495077पी अब जेसी-270561डब्ल्यू), 13 जून 2007/01 जून 2007 *

हवलदार (एस के टी) राज कपूर (सं. 14495607वाई अब जेसी-270562वाई), 01 जून 2007

हवलदार (क्लर्क) नन्द कुमार सिंह (सं. 14370610वाई अब जेसी-270563एफ), 01 जुलाई 2007

हवलदार (क्लर्क) नारायणन कुट्टी पी वी (सं. 14370709पी अब जेसी-270564के), 02 जुलाई 2007/01 जुलाई 2007

हवलदार (क्लर्क) सुरेश कुमार किझाकेवीतिल (सं. 14370804एफ अब जेसी-270720एच), 02 जुलाई 2007/01 जुलाई 2007 *

हवलदार (एस के टी) धर्मवीर सिंह (सं. 14495609के अब जेसी-270565एम), 01 जुलाई 2007

हवलदार (एस के टी) कृष्ण पाल (सं. 14383767एक्स अब जेसी-270721एल), 02 जुलाई 2007/01 जुलाई 2007 *

हवलदार (एस के टी) चक्र नारायण भगवन्त पुंडलीक (सं. 14385093के अब जेसी-270566पी), 01 जुलाई 2007

हवलदार (क्लर्क) अरविन्द कुमार (सं. 14382060एन अब जेसी-270722एन), 02 अगस्त 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार (क्लर्क) कश्मीर सिंह (सं. 14485135ए अब जेसी-270723डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007

हवलदार (क्लर्क) सुनील कुमार पठानिया (सं. 14486297एक्स अब जेसी-270724वाई), 01 अगस्त 2007

हवलदार (क्लर्क) सोहन लाल (सं. 14374103एच अब जेसी-270725एफ), 01 अगस्त 2007

हवलदार (क्लर्क) लोकनाथ स्वैन (सं. 14374256एम अब जेसी-270726के), 01 अगस्त 2007

हवलदार (क्लर्क) विक्रम बहादुर सिंह (सं. 14374908ए अब जेसी-270765एच), 01 अगस्त 2007

हवलदार (क्लर्क) सोम नाथ पांडे (सं. 14382110एन अब जेसी-270727एम), 01 अगस्त 2007

हवलदार (एस के टी) मोहन नारायण घटेल (सं. 14385097ए अब जेसी-270728पी), 02 अगस्त 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार (एस के टी) हरी शंकर सिंह चौहान (सं. 14385123डब्ल्यू अब जेसी-270729एक्स), 01 अगस्त 2007

हवलदार (क्लर्क) नेत्रपाल सिंह यादव (सं. 14495093एम अब जेसी-270766एल), 01 सितम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क) सुदेश सिंह (सं. 14382149एक्स अब जेसी-270730एम), 01 सितम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क) राम कुमार कीर (सं. 14495112एम अब जेसी-270834एन), 01 सितम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क) सरवन सिंह चंदावत (सं. 14495114एक्स अब जेसी-270767एम), 01 सितम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क) ओम सिंह (सं. 14495115ए अब जेसी-270731पी), 01 सितम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क) अनिल कुमार (सं. 14495121एन अब जेसी-270835डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क) गोविन्द सिंह क्षेत्री (सं. 14495123वाई अब जेसी-270768डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क) विनोद कुमार सिंह (सं. 14495139के अब जेसी-270836वाई), 01 सितम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क) अशोक कुमार (सं. 14382429एन अब जेसी-270732वाई), 01 सितम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क) अभिजीत नाथ (सं. 14382786डब्ल्यू अब जेसी-270769वाई), 03 सितम्बर 2007/01 सितम्बर 2007 *

हवलदार (क्लर्क) साधु राम (सं. 14382824एफ अब जेसी-270770एन), 01 सितम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क) लक्ष्मी शंकर (सं. 14378599ए अब जेसी-270733ए), 01 सितम्बर 2007

हवलदार (एस के टी) सुरेश कुमार जलोदिया (सं. 14385289एक्स अब जेसी-270837एफ), 01 सितम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क) अनुकूल चंद्रा सिकंदर (सं. 14489373के अब जेसी-270838के), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (क्लर्क) इकबाल सिंह (सं. 14495287पी अब जेसी-270839एम), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (क्लर्क) शैलेन्द्र कुमार (सं. 14383294के अब जेसी-270840एफ), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (क्लर्क) नारायण सिंह (सं. 14495461डब्ल्यू अब जेसी-270841के), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (क्लर्क) दया शंकर राय (सं. 14495465एम अब जेसी-270842एम), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (क्लर्क) उमेश प्रसाद (सं. 14383305एल अब जेसी-270843पी), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (क्लर्क) जयवीर सिंह (सं. 14383307डब्ल्यू अब जेसी-270844एक्स), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (क्लर्क) राम क्रिशन (सं. 14383313के अब जेसी-270845ए), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (क्लर्क) काला हस्ती वेंकटरतनम (सं. 14365557पी अब जेसी-270846एच), 06 सितम्बर 2007/01 सितम्बर 2007*

हवलदार (एस के टी) राम प्रकाश यादव (सं. 14482932ए अब जेसी-270872के), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (क्लर्क) कमल कुमार मजुमदार (सं. 14495592एफ अब जेसी-270847एल), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (क्लर्क) राज बहादुर (सं. 14495598एच अब जेसी-270848एन), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (क्लर्क) राम गोपाल पांडेय (सं. 14383322एल अब जेसी-270849डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (क्लर्क) विजे शंकर राम गुप्ता (सं. 14495606डब्ल्यू अब जेसी-270850एल), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (क्लर्क) एम डी गहार अली विस्वास (सं. 14383327के अब जेसी-270873एम), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (क्लर्क) दिनेश चन्द (सं. 14383330के अब जेसी-270851एन), 06 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007*

हवलदार (एस के टी) प्रभुदत्त सिंह (सं. 14385261एक्स अब जेसी-270874पी), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (एस के टी) नीलाप गांधी रेड्डी (सं. 14385737वाई अब जेसी-270852डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (एस के टी) हंश नाथ चौहान (सं. 14482817ए अब जेसी-270853वाई), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (एस के टी) सुदर्शन प्रियरथ (सं. 14479099के अब जेसी-270854एफ), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (एस के टी) अतुल आई पी (सं. 14385749एन अब जेसी-270855के), 01 अक्टूबर 2007

*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार ग्यान देव जोतीराम मदन (सं. 14380839एल अब जेसी-270818डब्ल्यू), 27 जून 2007/25 जुलाई 2006*

हवलदार पार्थसारथी एन (सं. 14397641एच अब जेसी-270819वाई), 23 फरवरी 2007/07 जनवरी 2007*

हवलदार जनक राज (सं. 14375546डब्ल्यू अब जेसी-270820एन), 22 अप्रैल 2007/18 फरवरी 2007*

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 14490934ए अब जेसी-270821डब्ल्यू), 09 जुलाई 2007/03 मार्च 2007*

हवलदार तिलक राज (सं. 14381808एक्स अब जेसी-270822वाई), 20 जून 2007/01 अप्रैल 2007*

हवलदार गुरमेल सिंह (सं. 14384356एल अब जेसी-270823एफ), 17 मई 2007/26 अप्रैल 2007*

बीएचएम सुभाष चन्द्र राउत (सं. 14377979एम अब जेसी-270824के), 12 जून 2007/01 मई 2007*

हवलदार मेजर सिंह (सं. 15102271एक्स अब जेसी-270825एम), 18 जून 2007/06 मई 2007*

हवलदार भूप सिंह यादव (सं. 14380737पी अब जेसी-270826पी), 25 अगस्त 2007/01 जून 2007*

हवलदार जयवीर सिंह (सं. 14476496एक्स अब जेसी-270827एक्स), 19 जुलाई 2007/17 जून 2007*

हवलदार श्रीरामलूलू वी (सं. 14389820एन अब जेसी-270828ए), 16 अगस्त 2007/01 जुलाई 2007*

हवलदार भीम लाल (सं. 15118532के अब जेसी-270829एच), 08 अगस्त 2007/04 जुलाई 2007*

हवलदार बसप्पा काजागर (सं. 14482511एक्स अब जेसी-270830एक्स), 01 अगस्त 2007

हवलदार करातकर कृष्णत गोरखनाथ (सं. 15102800वाई अब जेसी-270831ए), 01 अगस्त 2007

हवलदार बाल सुब्रामन्यन सी (सं. 14489420डब्ल्यू अब जेसी-270832एच), 01 अगस्त 2007

बीएचएम चन्द्र माल्ला जार्ज (सं. 14393976एच अब जेसी-270833एल), 29 अगस्त 2007/03 अगस्त 2007*

हवलदार ओम प्रकाश यादव (सं. 14372267ए अब जेसी-270856एम), 06 अगस्त 2007/24 फरवरी 2007*

हवलदार कृष्णा कैलास मिश्रा (सं. 14370281एन अब जेसी-270857पी), 03 अगस्त 2007/07 जून 2007*

हवलदार सैयद रफिक (सं. 14405075एल अब जेसी-270858एक्स), 25 जुलाई 2007/09 जून 2007*

हवलदार पालवे नारायण नामदेव (सं. 14399161एक्स अब जेसी-270859ए), 31 जुलाई 2007/01 जुलाई 2007*

हवलदार ए जोकोब सेल्वामोनी (सं. 15108304एन अब जेसी-270860पी), 29 अगस्त 2007/18 जुलाई 2007*

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 14498999एच अब जेसी-270861एक्स), 24 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007*

हवलदार राम निवास (सं. 14374700एक्स अब जेसी-270862ए), 28 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007*

हवलदार बबबन प्रसाद (सं. 14380107पी अब जेसी-270863एच),
21 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार जय सिंह (सं. 15109767पी अब जेसी-270864एल),
21 अगस्त 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार इकबाल सिंह (सं. 14376558एक्स अब जेसी-270865एन),
06 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार नरेन्द्र कुमार (सं. 15118819एफ अब जेसी-270866डब्ल्यू),
01 अगस्त 2007

हवलदार मेददीनेना श्रीनिवासा (सं. 14390290डब्ल्यू अब जेसी-270867वाई), 20 अगस्त 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार लान्डगे हनमंत तुलसीराम (सं. 14395368ए अब जेसी-270868एफ), 25 अगस्त 2007/04 अगस्त 2007 *

हवलदार मन्नु लाल (सं. 14482144डब्ल्यू अब जेसी-270869के),
29 सितम्बर 2007/17 अगस्त 2007 *

हवलदार रामक्रिंत सिंह यादव (सं. 14369398ए अब जेसी-270870वाई),
01 अक्टूबर 2007/01 सितम्बर 2007 *

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 14381440ए अब जेसी-270871एफ),
01 अक्टूबर 2007/01 सितम्बर 2007 *

हवलदार गौरी शंकर सिंह (सं. 14487533ए अब जेसी-270749एल),
20 जुलाई 2007/26 मई 2006 *

हवलदार अश्वनी कुमार नाथ (सं. 14377309एल अब जेसी-270750के), 13 अगस्त 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार मंगीत सिंह (सं. 3382886एन अब जेसी-270751एच),
28 मार्च 2007/15 फरवरी 2007 *

हवलदार चमन सिंह (सं. 14495496एम अब जेसी-270752एल),
01 जून 2007/01 अप्रैल 2007 *

हवलदार विजय कुमार इ के (सं. 14399356एच अब जेसी-270753एन), 01 अगस्त 2007/22 अप्रैल 2007 *

हवलदार वेणु एन (सं. 14490101के अब जेसी-270754डब्ल्यू),
19 जून 2007/15 मई 2007 *

हवलदार राजेश कुमार दुबे (सं. 14484590डब्ल्यू अब जेसी-270755वाई), 29 जून 2007/01 जून 2007 *

हवलदार बी चन्द्रा राव (सं. 14398933एक्स अब जेसी-270756एफ),
01 जून 2007

हवलदार बाल कृष्णन यादव (सं. 14397344पी अब जेसी-270757के), 01 जून 2007

हवलदार विनोद कुमार (सं. 14493076एन अब जेसी-270758एम),
26 जुलाई 2007/01 जून 2007 *

हवलदार आर सुब्रामनी (सं. 14391095एल अब जेसी-270759पी),
23 जुलाई 2007/03 जून 2007 *

हवलदार गोपीनाथन वी के (सं. 14485209के अब जेसी-270760के),
10 जुलाई 2007/01 जुलाई 2007 *

हवलदार राम चन्द्र (सं. 14377204एफ अब जेसी-270761एम),
08 जुलाई 2007/01 जुलाई 2007 *

आरएचएम महावीर सिंह (सं. 14365854एच अब जेसी-270762पी),
01 अगस्त 2007

हवलदार शिन्दे मोहन राजाराम (सं. 14360705एल अब जेसी-270763एक्स), 19 अगस्त 2007/01 अगस्त 2007 *

आरएचएम गनीश चन्द्रा (सं. 14487287ए अब जेसी-270764ए),
01 अगस्त 2007

बीएचएम बालाकृष्णन मनपाटील बैसीयन (सं. 14475349एच अब जेसी-270771डब्ल्यू), 08 जनवरी 2007/01 अक्टूबर 2006 *

हवलदार सरदार सिंह परमार (सं. 14400098एच अब जेसी-270772वाई), 16 जुलाई 2007/01 नवम्बर 2006 *

हवलदार घनमारे सुरेश नथू (सं. 15107229एच अब जेसी-270773एफ), 10 जून 2007/30 नवम्बर 2007 *

हवलदार सरोज कुमार पांडेय (सं. 14498239ए अब जेसी-270774के),
30 जुलाई 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार मोहन चन्द्रा (सं. 14373837एक्स अब जेसी-270775एम),
17 अगस्त 2007/01 फरवरी 2007 *

हवलदार तारा चन्द शर्मा (सं. 14373672के अब जेसी-270776पी),
01 जुलाई 2007/08 अप्रैल 2007 *

हवलदार विजय कुमार (सं. 14486737ए अब जेसी-270777एक्स),
16 अगस्त 2007/30 जून 2007 *

हवलदार राम सिंह (सं. 14488944एल अब जेसी-270778ए),
16 अगस्त 2007/30 जून 2007 *

हवलदार सेवानन्द यादव (सं. 14366930डब्ल्यू अब जेसी-270779एच), 01 अगस्त 2007/20 जुलाई 2007 *

हवलदार दलीप कुमार (सं. 14482748पी अब जेसी-270780एक्स),
19 अगस्त 2007/20 जुलाई 2007 *

हवलदार गीनी रामा राव (सं. 14483268एक्स अब जेसी-270781ए),
14 अगस्त 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार सन्कु राधाकृष्ण (सं. 15111825एम अब जेसी-270782एच),
01 अगस्त 2007

हवलदार सुमन सिंह चौहान (सं. 14393692वाई अब जेसी-270880एच), 29 सितम्बर 2007/14 अप्रैल 2007 *

हवलदार अवतार सिंह (सं. 14386093डब्ल्यू अब जेसी-270881एल),
24 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार राजेन्द्र राय (सं. 14374299एफ अब जेसी-270882एन),
27 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार प्रभजीत सिंह (सं. 14385581एम अब जेसी-270883डब्ल्यू),
08 अक्टूबर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार मधुकर नानू खाम्बे (सं. 14497755एच अब जेसी-270884वाई), 18 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार श्री निवास शुक्ला (सं. 14373852एम अब जेसी-270885एफ), 15 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

बीएचएम राज सिंह मल्हान (सं. 14485835एन अब जेसी-270886के), 30 अगस्त 2007/03 अगस्त 2007 *

हवलदार मोहना कुमारन नायर जी (सं. 14370943एल अब जेसी-270887एम), 03 अक्टूबर 2007/05 अगस्त 2007 *

हवलदार बाबू लाल (सं. 14391671के अब जेसी-270888पी), 02 अक्टूबर 2007/13 अगस्त 2007 *

हवलदार नारायण सिंह (सं. 14493850एक्स अब जेसी-270889एक्स), 03 अक्टूबर 2007/19 अगस्त 2007 *

हवलदार धर्म पाल सिंह (सं. 14493427एक्स अब जेसी-270890एम), 01 अक्टूबर 2007/01 सितम्बर 2007 *

हवलदार धनपती (सं. 14482576एल अब जेसी-270891पी), 01 सितम्बर 2007

हवलदार जी रामा मूर्ति (सं. 14484381वाई अब जेसी-270892एक्स), 01 सितम्बर 2007

हवलदार हेम राज (सं. 14403537एल अब जेसी-270893ए), 03 अक्टूबर 2007/01 सितम्बर 2007 *

हवलदार खुशी राम यादव (सं. 14376817पी अब जेसी-270894एच), 10 अक्टूबर 2007/03 सितम्बर 2007 *

हवलदार ओंकार सिंह भदौरिया (सं. 14396281एल अब जेसी-270895एल), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार रविन्द्र सिंह (सं. 14395227एल अब जेसी-270896एन), 09 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

हवलदार सुन्दर मोहन (सं. 15112999वाई अब जेसी-270897डब्ल्यू), 06 मई 2007/01 अप्रैल 2007 *

हवलदार सत्यापाल (सं. 15100315एल अब जेसी-270898वाई), 21 सितम्बर 2007/26 अगस्त 2007 *

आरएचएम ताकेश्वर सिंह (सं. 15121124के अब जेसी-270899एफ), 30 सितम्बर 2007/27 अगस्त 2007 *

आरएचएम लिंगा राजू बी (सं. 14422736डब्ल्यू अब जेसी-270900एल), 04 अक्टूबर 2007/27 अगस्त 2007 *

आरएचएम कन्हैया राम (सं. 14422644के अब जेसी-270901एन), 06 अक्टूबर 2007/27 अगस्त 2007 *

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 15103939एच अब जेसी-270902डब्ल्यू), 06 सितम्बर 2007/01 सितम्बर 2007 *

हवलदार मनोज कुमार (सं. 15112944पी अब जेसी-270903वाई), 01 अक्टूबर 2007

आरएचएम प्रदीप डी (सं. 14402000एच अब जेसी-270904एफ), 17 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007 *

आरएचएम राजेन्द्र सिंह (सं. 15116192एन अब जेसी-270905के), 17 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007 *

आरएचएम भगत सिंह (सं. 14405251एक्स अब जेसी-270906एम), 17 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007 *

आरएचएम जी वेंकटेशन (सं. 14409544ए अब जेसी-270907पी), 18 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007 *

आरएचएम रवी कुमार (सं. 15126122एच अब जेसी-270908एक्स), 17 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007 *

आरएचएम सुखवीर (सं. 15120600एल अब जेसी-270909ए), 17 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007 *

आरएचएम सुरजा राम (सं. 15122303डब्ल्यू अब जेसी-270910पी), 17 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007 *

आरएचएम कृष्णन (सं. 14411296एन अब जेसी-270911एक्स), 17 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007 *

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

सेना वायु रक्षा कोर

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (जी.डी.) के पद में

सूबेदार उत्तम चंद (जेसी-296976एच), 01 नवम्बर 2007

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (एसकेटी) के पद में

सूबेदार कुलवंत सिंह (जेसी-296603पी), 01 दिसम्बर 2007

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी.डी.) के पद में

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-299379वाई), 10 सितम्बर 2007/24 जुलाई 2007 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-298730एच), 11 सितम्बर 2007/31 जुलाई 2007 *

नायब सूबेदार दलीप सिंह (जेसी-299329एन), 01 सितम्बर 2007/31 जुलाई 2007 *

नायब सूबेदार रामचंद्र सिंह यादव (जेसी-299402एफ), 17 अक्टूबर 2007/31 जुलाई 2007 *

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-298560के), 06 अक्टूबर 2007/01 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-298628ए), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार राम निवास स्वामी (जेसी-298209एच), 29 अक्टूबर 2007/09 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार राम केवल (जेसी-299350डब्ल्यू), 25 अक्टूबर 2007/09 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार महेंद्र पाल सिंह (जेसी-298306ए), 08 अक्टूबर 2007/16 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार सुमेर सिंह टाखर (जेसी-298861एम), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार राम औतार (जेसी-299072एन), 02 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार आर बालासुब्रमनी (जेसी-298300वाई), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार चंद्रभान गौड़ (जेसी-298410एन), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार मधन चंद (जेसी-298393वाई), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार राम अवतार (जेसी-298411डब्ल्यू), 12 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *

नायब सूबेदार शिनेवास ठाकुर (जेसी-298741पी), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार शिव राज सिंह (जेसी-299051एक्स), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार अनुज कुमार (जेसी-299464एफ), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार शिव प्रसाद (जेसी-299469ए), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार दिनेश तिवारी (जेसी-298152वाई), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार राज सिंह (जेसी-298715एन), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार बुध सिंह (जेसी-298842एच), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार राम फूल सिंह (जेसी-299014के), 03 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007 *

नायब सूबेदार प्रसाद पी (जेसी-299472ए), 01 दिसम्बर 2007

सब्सटेंटिव सूबेदार (टी.आई.एफ.सी.) के पद में

नायब सूबेदार बिनोद सिंह राठौर (जेसी-299237एफ), 01 सितम्बर 2007/14 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार तरुन कुमार बनर्जी (जेसी-299502एम), 07 सितम्बर 2007/14 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार मनोज कुमार (जेसी-299436पी), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार विजय कुमार सिंह (जेसी-299428डब्ल्यू), 06 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *

नायब सूबेदार सुनील कुमार (जेसी-299430एन), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार नरेंद्र कुमार (जेसी-299431डब्ल्यू), 04 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *

नायब सूबेदार रहीम खान पठान (जेसी-299432वाई), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार धर्मेन्द्र प्रताप सिंह (जेसी-299433एफ), 01 नवम्बर 2007

सब्सटेंटिव सूबेदार (ए.आई.जी.) के पद में

नायब सूबेदार दिनेश कुमार सेमवाल (जेसी-297941वाई), 01 दिसम्बर 2007

सब्सटेंटिव सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार तपन कुमार मल्लिक (जेसी-298719के), 01 दिसम्बर 2007

सब्सटेंटिव सूबेदार (एस.के.टी.) के पद में

नायब सूबेदार जनार्दन सिंह (जेसी-298652डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार नरेंद्र पाल सिंह (जेसी-298570एन), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार बिस्व मोहन सरकार (जेसी-298571डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

पी. रामा शास्त्री

अवर सचिव

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

आईसी सं., नाम, आर्म और सब्सटेंटिव तिथि

37792 रविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री--29 अप्रैल 2007

37798 ए डी संगनागौडा, इन्ट--12 नवम्बर 2007

38498 सुनील सोनी, इन्फैन्ट्री--22 दिसम्बर 2005

39021 इन्द्रजीत सिंह, एओसी--07 जून 2006

39613 सतिन्दर सिंह तूर, एसी--13 जून 2007

39850 अनुपम शुक्ला, इंजीनियर्स--13 जून 2005

39852 इन्दर मोहन, एईसी--13 जून 2007

41059 राजबीर सिंह, ईएमई--24 दिसम्बर 2006

38385 एम एल जंगिद, एएडी--22 दिसम्बर 2005

38638 अविनाश जोष, इंजीनियर्स--16 दिसम्बर 2004

39300 ए वी देशमुख, आर्टी--13 दिसम्बर 2006

39460 एस डी सरीन, एसी--13 जून 2007

39483 पुरोजित राँय, इन्फैन्ट्री--13 जून 2007

39511 ए के प्रसाद, इन्फैन्ट्री--13 जून 2007

39524 प्रशाथ कुमार, आर्टी--13 जून 2007

39543 एन एस लाम्बा, एओसी--13 जून 2007

39547 टी सी दहिया, इन्ट--13 जून 2007

39549 नसीब सिंह, इन्फैन्ट्री--13 जून 2007

39578 अभय प्रकाश, आर्टी--13 जून 2007

39595 ओ पी चौधरी, एसी--13 जून 2007

39619 जे पी साहू, इन्फैन्ट्री--13 जून 2007

39631 ए आर सरकार, आर्टी--13 जून 2007

39635 ए आर थापन, आर्टी--13 जून 2007

39639 आर एस अहलूवालिया, एएससी--13 जून 2007

39641 मोहम्मद अमानुल्लाह, एएडी--13 जून 2007

39658 माईकल थायिल, इन्फैन्ट्री --13 जून 2007
 39659 एस आर चौधरी, इंजीनियर्स--13 जून 2007
 39663 दीन दयाल, मैक इन्फैन्ट्री--13 जून 2007
 39670 मानवेन्द्र मेहता, एसी--13 जून 2007
 39684 बी पी सिंह कुशवाहा, एसी--13 जून 2007
 39692 शाह कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री--13 जून 2007
 39694 राजीव चुम, इन्फैन्ट्री--13 जून 2007
 39711 मुरली नायर, एओसी--13 जून 2007
 39714 पी के बाटल, एओसी--13 जून 2007
 39719 शैलेश पंचतोथिया, इन्फैन्ट्री--13 जून 2007
 39723 एन पी एस मान, गार्ड्स--13 जून 2007
 39744 गिरीश कामत, इन्फैन्ट्री--13 जून 2007
 39764 अशाक कुमार, इन्फैन्ट्री--13 जून 2007
 39765 आर माथुर, ईएमई--13 जून 2007
 39785 विजय कुमार, आर्टी--13 जून 2007
 41455 टी बी सुब्बा राव, इंजीनियर्स--18 जून 2007
 41460 आर एन पी सिंह, ईएमई --18 जून 2007
 36268 एस पी तवामणि, इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004
 मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)
 42210 सी वी शर्मा, इन्फैन्ट्री--09 जून 2004

अजय गोयल
 उप निदेशक, एमएस-8ए

सं. 86, दिनांक 01 फरवरी 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा कमीशन (मेन)

कप्तान से मेजर

एसएस नं., नाम, आर्म, कोर्स सं. पदोन्नति के लिए संशोधित वरिष्ठता तिथि और मेजर दिनांक से

38995 अमन तारा, एसी, 71 (नान टैक), 03 नवम्बर 2001, 03 नवम्बर 2007

39014 विजय सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री, 71 (नान टैक), 03 नवम्बर 2001, 03 नवम्बर 2007

39028 सौरभ शर्मा, इन्फैन्ट्री, 71 (नान टैक), 03 नवम्बर 2001, 03 नवम्बर 2007

39038 देवेन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री, 71 (नान टैक), 03 नवम्बर 2001, 03 नवम्बर 2007

39053 शाजी के, एओसी, 71 (नान टैक), 03 नवम्बर 2001, 03 नवम्बर 2007

39075 मयंक दुबे, इन्फैन्ट्री, 71 (नान टैक), 03 नवम्बर 2001, 03 नवम्बर 2007

39088 कारडोजो एण्ड्रे, इन्फैन्ट्री, 71 (नान टैक), 03 नवम्बर 2001, 03 नवम्बर 2007

39094 सुमेध कुमार, इन्फैन्ट्री, 71 (नान टैक), 03 नवम्बर 2001, 03 नवम्बर 2007

39101 राजेश गुरंग, इंजीनियर्स, 71 (नान टैक), 03 नवम्बर 2001, 03 नवम्बर 2007

39109 आशीष मलिक, एओसी, 71 (नान टैक), 03 नवम्बर 2001, 03 नवम्बर 2007

39112 अमित मेहता, एसी, 71 (नान टैक), 03 नवम्बर 2001, 03 नवम्बर 2007

39121 परवीन शर्मा, आर्टी, 71 (नान टैक), 03 नवम्बर 2001, 03 नवम्बर 2007

40249 परवित कुमार सिवाच, ईएमई, 19 (टैक), 06 नवम्बर 2001, 06 नवम्बर 2007

40260 भूपेन्द्र सिंह ग्रेवाल, ईएमई, 19 (टैक), 06 नवम्बर 2001, 06 नवम्बर 2007

40261 विक्रम बीरा, ईएमई, 19 (टैक), 06 नवम्बर 2001, 06 नवम्बर 2007

जसवन्त सिंह
 संयुक्त निदेशक एमएस-8सी

सं. 87, दिनांक 31 जनवरी 2008.--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष कमीशन प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले. कर्नल बनाया जाता है

मेजर शैलेन्द्र कुमार शर्मा (टीए-42018), (इंजीनियर)--16 दिसम्बर 2004

जयराज
 अवर सचिव

(रक्षा उत्पादन विभाग)

सं. 88, दिनांक 30 जनवरी 2008.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

1. मु.गु.आ.स्था. (डब्ल्यू.एस.), मुंबई की श्रीमती पूर्णिमा भार्गव, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-I की मुख्यालय गु.आ.नि. (नैवल), नई दिल्ली में दिनांक 21 अगस्त 2006 (पूर्वाह्न) कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

2. मु.गु.आ.स्था. (डब्ल्यू.ई.), बैंगलोर के श्री वी. सी. पंत, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (नैवल), की गु.आ.स्था. (डब्ल्यू.ई.) बैंगलोर में दिनांक 21 जुलाई 2006 (अपराह) से कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

3. गु. आ. नि. (राडार) बैंगलोर के श्री जोसफ सिकुरा, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 14 जुलाई 2006 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

4. मानकीकरण निदेशालय, नई दिल्ली के श्री एस. के. सक्सेना, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 17 जुलाई 2006 से व.गु.आ.स्था. (इलैक्ट्रॉनिकी), नई दिल्ली में कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

5. व.गु.आ.स्था. (इलैक्ट्रॉनिकी), मुंबई के श्री डी. एस. बम्बाल, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की गु.आ.स्था. (यू.बी.), मुंबई में दिनांक 29 जून 2007 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

6. गु.आ.नि. (इलैक्ट्रॉनिकी), बैंगलोर की श्रीमती आर. के. सराजा, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 14 जुलाई 2006 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

7. गु.आ.नि. (इलैक्ट्रॉनिकी), बैंगलोर के श्री चंद्रशेखर वी. कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 14 जुलाई 2006 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

8. व.गु.आ.स्था. (इलैक्ट्रॉनिकी), बैंगलोर के श्री आर. वीरन्ना, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की गु.आ.नि. (राडार), बैंगलोर में दिनांक 27 नवम्बर 2006 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

9. गु.आ.नि. (इलैक्ट्रॉनिकी), बैंगलोर की श्रीमती गौरी राजेन्द्रन, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 19 जनवरी 2007 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

10. मुख्यालय गु.आ.नि. (नैवल), नई दिल्ली के श्री वी. के. तनेजा, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 19 जुलाई 2006 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

11. मुख्यालय गु.आ.नि. (युद्धपोत परियोजना), नई दिल्ली के श्री हनुमान प्रसाद, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-I की गु.आ.स्था. (युद्धपोत परियोजना), मुंबई में दिनांक 25 जुलाई 2006 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

12. गु.आ.स्था. (ई.एफ.एस.), मुंबई के श्री टी. के. दास, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (नैवल) की गु.गु.आ.स्था. (एम.एस.), मुंबई में दिनांक 24 जुलाई 2006 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

13. गु.आ.नि. (वाहन), अहमदनगर के श्री वी. के. शागा, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की गु.आ.नि. (एफ.एफ.ई.), पुणे में दिनांक 23 अप्रैल 2007 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

14. गु.आ.नि. (ई.ई.), पुणे के श्री एम. के. रविन्द्रन, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 01 मई 2007 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

15. गु.आ.नि. (ई.ई.), पुणे के श्री आर. के. सक्सेना, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की गु.गु.आ.स्था. (डब्ल्यू.एस.), मुंबई में दिनांक 08 फरवरी 2007 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

16. गु.आ.नि. (विशेष वाहन), देहू रोड के श्री एस. एस. सोनावने, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की गु.गु.आ.स्था. (एम.एस.), मुंबई में दिनांक 15 मई 2007 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

17. गु.आ.नि. (ई.ई.), पुणे के श्री एस. बी. कोकाटे, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की गु.गु.आ.स्था. (एम.एस.), मुंबई में दिनांक 27 फरवरी 2007 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

18. व.गु.आ.स्था. (वाहन), चेन्नई के श्री एन. नागारतिनम, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की व.गु.आ.स्था. (वाहन), के.जी.एफ. में दिनांक 01 मार्च 2007 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

19. व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), कोलकाता के श्री एन. मलिक, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की गु.आ.नि. (टी. एंड सी.), कानपुर में दिनांक 25 सितम्बर 2006 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

20. व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), कोलकाता के श्री एस. के. साहा, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की गु.आ.नि. (टी. एंड सी.), कानपुर में दिनांक 01 सितम्बर 2006 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

21. व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), नई दिल्ली के श्री पी. के. नन्दा, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की गु.आ.नि. (सामान्य भंडार), कानपुर में दिनांक 05 फरवरी 2007 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

22. व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), कानपुर के श्री एस. पी. सिंह, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 17 जुलाई 2006 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

23. व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), चेन्नई के श्री एन. सेंथिल कुमार, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 14 जुलाई 2006 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

24. व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), कोलकाता के श्री एस. के. भट्टाचार्या, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 20 जुलाई 2006 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

25. व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), मुंबई के श्री बी. डी. मौर्या, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 14 जुलाई 2006 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

26. व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), मुंबई के श्री किशुना लाल, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 21 सितम्बर 2006 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

27. व.गु.आ.स्था. (आयुध), जबलपुर के श्री पी. के. रायपर्वतार, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की गु.आ.स्था. (शस्त्र), अम्बरनाथ में दिनांक 18 अगस्त 2006 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

28. गु.आ.नि. (शस्त्र), जबलपुर के श्री वी. कृष्णास्वामी, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 31 जुलाई 2006 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिकी अधिकारी के रूप में।

29. गु.आ.नि. (शस्त्र), जबलपुर के श्री मार्टिन खाखा, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की व.गु.आ.स्था. (आयुध), तिरुचिरापल्ली में दिनांक 23 सितम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

30. रक्षा मानकीकरण सैल, इच्छपुर के श्री एस. भट्टाचार्य, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की व.गु.आ.स्था. (लघु शस्त्र), इच्छपुर में दिनांक 17 अगस्त 2006 (पूर्वाह्न) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

31. गु.आ.स्था. (आयुध), वारनगांव के श्री एस.पी.पी. वालकर, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 19 जनवरी 2007 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

32. व.गु.आ.स्था. (आयुध), चंद्रपुर के डॉ. एल. प्रसाद, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की गु.आ.नि. (सैन्य विस्फोटक), पुणे में दिनांक 20 फरवरी 2007 (पूर्वाह्न) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

33. गु.आ.नि. (यंत्र), देहरादून के श्री वी. एस. सागर, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 01 अगस्त 2006 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

सुभाष चंद्र
अवर सचिव

राष्ट्रीय कौडेट कोर

सं. 89. दिनांक 31 जनवरी 2008.--राष्ट्रपति निम्नलिखित एनसीसी पूर्णकालिक महिला अधिकारियों की लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्तियां करते हैं। उनकी नियुक्ति तिथि व रैंक संबंधी वरिष्ठता उनके नाम के सामने दी गई है :--

एनसीसी पूर्णकालिक महिला अधिकारी
(स्थायी कमीशन प्राप्त लेफ्टिनेंट)

नं. रैंक और नाम, नियुक्ति तिथि एवं जन्म तिथि

एनसीसी/जीडी/पीसी-12506 ले. फराह दीबा, 05 जुलाई 2002, 05 मार्च 1974

एनसीसी/जीडी/पीसी-12507 ले. पालाबोइना सुरेखा राव, 08 जुलाई 2002, 08 अगस्त 1969

एनसीसी/जीडी/पीसी-12508 ले. सविता चिल्लर, 02 जुलाई 2002, 15 मार्च 1970

एनसीसी/जीडी/पीसी-12509 ले. दीप्ति, 29 जून 2002, 25 दिसम्बर 1976

एनसीसी/जीडी/पीसी-12510 ले. कुलबिन्दर कौर संधु, 27 जून 2002, 02 मई 1976

एनसीसी/जीडी/पीसी-12511 ले. दीपा चन्द्रशेखरन, 08 जुलाई 2002, 30 जुलाई 1976

एनसीसी/जीडी/पीसी-12512 ले. निवेदिता मिश्रा, 08 जुलाई 2002, 04 जनवरी 1974

एनसीसी/जीडी/पीसी-12513 ले. रजिथा दिवाकरन, 01 जुलाई 2002, 24 सितम्बर 1973

एनसीसी/जीडी/पीसी-12515 ले. महुवा भट्टाचार्यजी, 04 जुलाई 2002, 27 अक्तूबर 1973

एनसीसी/जीडी/पीसी-12516 ले. परवीन मनसुराली बुधवामी, 08 जुलाई 2002, 15 जुलाई 1975

एनसीसी/जीडी/पीसी-12517 ले. हेमाक्षी रमनलाल राठौड़, 08 जुलाई 2002, 22 दिसम्बर 1975

एनसीसी/जीडी/पीसी-12518 ले. कविता दह्याभाई इटालियन, 27 जून 2002, 17 सितम्बर 1976

एनसीसी/जीडी/पीसी-12519 ले. मिनाक्षी, 02 जुलाई 2002, 08 जनवरी 1976

एनसीसी/जीडी/पीसी-12520 ले. रीना गोस्वामी, 08 जुलाई 2002, 16 अगस्त 1976

एनसीसी/जीडी/पीसी-12521 ले. लंगम रंजना देवी, 08 जुलाई 2002, 01 अप्रैल 1971

एनसीसी/जीडी/पीसी-12522 ले. मंजु आर, 08 जुलाई 2002, 01 नवम्बर 1974

एनसीसी/जीडी/पीसी-12523 ले. नरिन्दर कौर, 02 जुलाई 2002, 04 फरवरी 1973

एनसीसी/जीडी/पीसी-12524 ले. मुथेरा जमाल, 15 मई 2003, 17 फरवरी 1972

एनसीसी/जीडी/पीसी-12525 ले. गंधम श्रीप्रिया, 08 जुलाई 2002, 25 मई 1975

एनसीसी/जीडी/पीसी-12526 ले. सुबोध शानवाल, 30 अप्रैल 2003, 17 जुलाई 1973

पी. सी. राय
कर्नल, निदेशक (एम एस)

वायु शाखा

सं. 90, दिनांक 1 फरवरी 2008.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित यू/टी आफिसर को प्रदत्त औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मू/24745/4/पीबी (ओ)/पीसी/1/184/डीएस/एयर-III तारीख 23 अप्रैल 2001 के उपबंधों के तहत अल्पकालीन सेवा कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

यूटी/ऑफिसर से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर आशा चिवकन्ना (28365), 17 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मू/2445/4/पीपी (ओ)/पीसी-I/184/डीएस/एयर-III तारीख 23 अप्रैल 2001 के उपबंधों के तहत औपबधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर आशा चिक्कन्ना (28365), 05 जनवरी 2005 से प्रभावी।

एन. विजय कुमार

विंग कमांडर

जे डी पी ओ-3 (डी)

वित्त प्रभाग

सं. 91, दिनांक 29 जनवरी 2008.--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में श्री एस. एल. एस. हिमांशु को उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 जनवरी, 2008 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राम चरण मीना

सहायक वित्तीय सलाहकार

सं. 92, दिनांक 31 जनवरी 2008.--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने और अपना रैंक बनाने की अनुमति देते हैं :--

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्ति

ले. कर्नल शेलेन्द्र कुमार शर्मा (टीए-42018), (इंजीनियर), 31 जुलाई 2006

जयराज

अवर सचिव

सं. 93, दिनांक 01 फरवरी 2008.--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

आईसी-31329 कर्नल (टीएस) परमिन्द्रजीत सिंह ग्रेवाल, एम/इन्फैन्ट्री--02 अगस्त 2006 (अपराह)

आईसी-31151 कर्नल (टीएस) बतरा सुरेश कुमार, आर्टी--08 फरवरी 2007 (अपराह)

आईसी-44911 कर्नल धोबहल राजीव, सिग्नल्स--31 मार्च 2007 (अपराह)

आईसी-30422 कर्नल एम वी भोगी, सिग्नल्स--30 मई 2006 (अपराह)

एसएल-2704 ए/ कर्नल एन एम कार्तिक, इंजीनियर--11 अक्टूबर 2005 (अपराह)

आईसी-40686 कर्नल के ए वी भास्कर, इंजीनियर--10 अप्रैल 2007 (अपराह)

आईसी-34698 कर्नल चौवहान चन्द्र कान्त, इंजीनियर--25 मई 2007 (अपराह)

आईसी-41886 कर्नल गोविन्द सिंह ग्रेवाल, इंजीनियर--22 अप्रैल 2007 (अपराह)

आईसी-34447 कर्नल सुदीप राय, एओसी--31 अक्टूबर 2005 (अपराह)

आईसी-42328 कर्नल अरविन्द गांगुली, एओसी--13 अगस्त 2006 (पूर्वाह)

आईसी-38490 कर्नल (टीएस) अश्वनी कुमार आनन्द, एओसी--14 अक्टूबर 2006 (अपराह)

आईसी-35617 कर्नल (टीएस) राजेन्द्र सिंह, एओसी--14 अक्टूबर 2006 (अपराह)

आईसी-37472 कर्नल गुरदीप सिंह, एओसी--02 अप्रैल 2006 (अपराह)

आईसी-34431 कर्नल सुनील कुमार धवन, एओसी--15 अगस्त 2005 (अपराह)

आईसी-38019 कर्नल सी रामाचन्द्रन, एओसी--15 अक्टूबर 2005 (अपराह)

आईसी-41763 ए/कर्नल विशु सिक्का, एओसी--07 जुलाई 2005 (अपराह)

आईसी-35703 कर्नल (टीएस) ए पी राव, इन्ट--08 अप्रैल 2006 (अपराह)

आईसी-40211 कर्नल सी आई ओ मोरिस, इन्ट--04 मार्च 2006 (अपराह)

एस. के. चक्रवर्ती

संयुक्त निदेशक

एम एस/पी आर

शुद्धि पत्र

सं. 94, दिनांक 1 फरवरी 2008.-- भारत के राजपत्र संख्या 312 में दिनांक 25 जून 2005 को शीर्षक नियमित सेनास्थायी कमीशन एवं उप-शीर्षक कप्तान से मेजर के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

आईसी-54793 अरविन्द कौल, इन्फैन्ट्री

के सामने : 16 दिसम्बर 2004

के बदले : 06 नवम्बर 2003 पढ़ा जाये

जसवंत सिंह

संयुक्त निदेशक

एम एस-8सी

MINISTRY OF DEFENCE

AIR HEADQUARTERS

New Delhi, the 16th February 2008

No. 82, dated 29th January 2008—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Ranjan Mohapatra, Asstt. as Officiating Section Officer (Group 'B' Gazetted in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-) under Rule 7(8) of AFHQ Civil Services Rules 2001, with effect from 20 Apr 2007 to 23 Aug 2007 or till such time the individual retires or till regular incumbents become available, whichever is earlier.

2. This appointment is made purely as stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SHANKAR SINGH

Dy. Chief Administrative Officer

ARMY BRANCH

No. 83, dated 30th January 2008—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMY MEDICAL CORPS

To be Naib Subedar (X-Ray Assistant)

Hav Dharam Pal (No. 13957726X now JC-695751F), 02 Dec 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Jay Prakash Yadav (No. 13953969L now JC-695891N), 09 Mar 2007*

Hav Ravindra Kumar Singh (No. 13954017X now JC-695868A), 24 Feb 2007*

Hav Jangam Padma Rao (No. 13955789F now JC-695843N), 31 Jan 2007*

Hav Mohanan PM (No. 13956038M now JC-695892W), 31 Jan 2007*

Hav Tej Pal Singh (No. 13956586K now JC-695844W), 31 Jan 2007*

Hav Raj Kumar (No. 13955503F now JC-695845Y), 29 Jan 2007*

Hav Sukanta Kumar Dash (No. 13957607F now JC-695846F), 07 Feb 2007*

Hav Kuldeep Singh (No. 13957815W now JC-695847K), 29 Jan 2007*

Hav Maheswar Swain (No. 13957811A now JC-695848M), 03 Feb 2007*

Hav PS Sajith Kumar (No. 13957894W now JC-695869H), 28 Feb 2007*

Hav Bijender Singh (No. 13957966P now JC-695870X), 12 Feb 2007*

Hav Madhwa Nand (No. 13957890A now JC-695849P), 31 Jan 2007*

Hav Shakeel Ahmad Shah (No. 13958586H now JC-695850K), 31 Jan 2007*

Hav Thomas Kutty K (No. 13958848N now JC-695851M), 23 Jan 2007*

Hav Mohan Singh (No. 13959542X now JC-695852P), 02 Feb 2007*

Hav P Jaggaiah (No. 13959536K now JC-695871A), 13 Feb 2007*

Hav Brahama Nand (No. 13956227W now JC-695853X), 31 Jan 2007*

Hav Tukhen Hazarika (No. 13957851F now JC-695872H), 26 Feb 2007*

Hav Amar Singh (No. 13957952P now JC-695873L), 24 Feb 2007*

Hav Jaiveer (No. 13958134A now JC-695874N), 11 Feb 2007*

Hav Gushai Singh (No. 13959390F now JC-695854A), 27 Jan 2007*

Hav Satheesh P (No. 13959879A now JC-695855H), 29 Jan 2007*

Hav Hoshyar Singh (No. 13961139K now JC-695856L), 25 Jan 2007*

Hav Hari Singh (No. 13961464K now JC-695875N), 28 Feb 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Upendra Sharma (No. 13956999N now JC-695876Y), 10 Feb 2007*

Hav Samir Dutta (No. 13961859L now JC-695893Y), 13 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Hav C Upendran (No. 13962631F now JC-695894F), 09 Mar 2007*

Hav G Sekar (No. 13963604K now JC-695884X), 06 Mar 2007*

Hav Krishna Kumar (No. 13963723A now JC-695919H), 28 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Raj Kumar NK (No. 13964671F now JC-695956W), 23 Apr 2007*

Hav Uttam Kumar Halder (No. 13965142F now JC-695929M), 02 Apr 2007*

Hav Chalwad Prabhakar Narayan Ran (No. 139654251I now JC-695957Y), 19 Apr 2007*

Hav Umesh Sharma (No. 13965477Y now JC-695930F), 07 Apr 2007

Hav Subhash Chandra (No. 13957981K now JC-695931K), 03 Apr 2007*

Hav Jadhav Ganapati Pandurang (No. 13965501K now JC-695932M), 02 Apr 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Sukhbir Singh (No. 13965557W now JC-695958F), 01 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Rajan A (No. 13965624W now JC-695960Y), 01 Jun 2007*

Hav Manoj Kumar (No. 13965781H now JC-695961F), 01 Jun 2007*

Hav A Pandiyan (No. 13966544L now JC-695978P), 06 Jun 2007*

Hav Murugesan K (No. 13966582F now JC-695979X), 06 Jul 2007*

Hav Shinde Dadasaheb Nivrutti (No. 13966686H now JC-695980M), 05 Jun 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Peshkar Singh Yadav (No. 13965134H now JC-695993K), 20 Jul 2007*

Hav Suresh Chand Gupta (No. 13966722H now JC-695986N), 01 Jul 2007*

Hav Bijender Singh (No. 13966842F now JC-695994M), 18 Jul 2007*

Hav K Ranjit Singha (No. 13967094L now JC-695987W), 01 Jul 2007*

Hav Shree Prasad Mehta (No. 13967170M now JC-695988Y), 04 Jul 2007*

Hav S Ragunatha Kumar (No. 13967535W now JC-696008Y), 31 Jul 2007

Hav Snehasis Sinha Roy (No. 13967829K now JC-695989F), 02 Jul 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Raghubir Singh Rawat (No. 13967830Y now JC-696010W), 01 Aug 2007*

Hav Buddha Dev Dahal Chetry (No. 13968174P now JC-696009F), 01 Aug 2007*

Hav Ettiah N (No. 13968462F now JC-696027K), 06 Sep 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Golam Zikria (No. 13968491W now JC-696028M), 07 Sep 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay and allowances)

R. C. RATURI
Dy. Secy.

No. 84, dated 29th January 2008—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (AIG)

Sub Mrinal Kanti Sinha Ray (JC-258912N), 07 Nov 2007/01 Nov 2007*

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Vajeer N (JC-258518H), 19 Oct 2007/01 Sep 2007*

Sub Gurcharan Singh (JC-256985F), 23 Oct 2007/01 Sep 2007*

Sub Dharamvir Singh Hudday (JC-260639H), 07 Nov 2007/01 Nov 2007*

Sub Kashi Nath Singh (JC-260764M), 01 Nov 2007

Sub Nidhiram Ghosh (JC-258965M), 01 Nov 2007

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Rajendra Prasad Yadav (JC-264444P), 01 Mar 2007*

Nb Sub Naresh Kumar (JC-265214N), 01 Jun 2007

Nb Sub Sardar Singh (JC-262575F), 01 Sep 2007

Nb Sub M Shanmugam (JC-266082X), 07 Nov 2007/01 Oct 2007*

Nb Sub Awadesh Kumar (JC-265620N), 13 Nov 2007/01 Nov 2007*

Nb Sub Ashok Kumar (JC-266087W), 10 Nov 2007/01 Nov 2007*

Nb Sub D Karikalan (JC-262580M), 03 Nov 2007/01 Nov 2007*

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Bachcha Prasad Singh (JC-267614Y), 23 Mar 2007/21 Aug 2006*

Nb Sub Yogesh Kumar (JC-266426L), 20 Apr 2007/12 Feb 2007*

Nb Sub Himat Singh (JC-267233X), 14 May 2007/
28 Aug 2006*

Nb Sub Swaran Singh (JC-266327H), 01 Apr 2007

Nb Sub Selvadasan P (JC-266782L), 02 Apr 2007/01 Apr
2007*

Nb Sub Krishan Lal (JC-266613K), 01 Apr 2007

Nb Sub Kola Nageshwara Rao (JC-266459W), 17 Oct
2007/01 Aug 2007*

Nb Sub Degala Vijaya Kumar (JC-267464N), 01 May
2007

Nb Sub Surjan Singh (JC-266380N), 01 May 2007

Nb Sub K Selva Kumar (JC-266452M), 01 May 2007

Nb Sub Harbans Singh (JC-267244K), 01 May 2007

Nb Sub Gurmail Singh (JC-267170A), 03 May 2007/08
Apr 2007*

Nb Sub Man Bahadur Khadka (JC-268402A), 10 Nov
2007/10 Aug 2007*

Nb Sub Anand Prakash (JC-268739H), 19 Oct 2007/05
Aug 2007*

Nb Sub Jagdish Bahadur Singh (JC-268119M), 07 Nov
2007/31 Aug 2007*

Nb Sub Bahadur Singh (JC-267466Y), 05 Oct 2007/01
Oct 2007*

Nb Sub Jagat Bahadur Singh (JC-268863K), 10 Dec
2007/09 Oct 2007*

*(Gtd Seniority wef)

To be Nb Sub (Clerk GD & SKT)

Hav (Cik) Kalyan Ghosh (No. 15118129X now JC-
270557N), 01 Jun 2007

Hav (Cik) Gobind Chandra Nayak (No. 15118121L now JC-
270415W), 01 Jun 2007

Hav (Cik) Sushant Kumar Panda (No. 15118141Y now JC-
270558W), 01 Jun 2007

Hav (Cik) Manoj TS (No. 15118192M now JC-
270559Y), 01 Jun 2007

Hav (Cik) Prem Singh (No. 14382030W now JC-
270560N), 01 Jun 2007

Hav (Cik) JN Singh Yadav (No. 14495077P now JC-
270561W), 13 Jun 2007/01 Jun 2007*

Hav (Skt) Raj Kapoor (No. 14495607Y now JC-
270562Y), 01 Jun 2007

Hav (Cik) Nand Kumar Singh (No. 14370610Y now JC-
270563F), 01 Jul 2007

Hav (Cik) Narayanan Kutty PV (No. 14370709P now JC-
270564K), 02 Jul 2007/01 Jul 2007*

Hav (Cik) Suresh Kumar Kizhakkeveetil
(No. 14370804F now JC-270720H), 02 Jul 2007/01 Jul
2007*

Hav (Skt) Dharmbir Singh (No. 14495609K now JC-
270565M), 01 Jul 2007

Hav (Skt) Krishna Pal (No. 14383767X now JC-
270721L), 02 Jul 2007/01 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances)

Hav (Skt) Chakra Narayan Bhagwant Pundlik
(No. 14385093K now JC-270566P), 01 Jul 2007

Hav (Cik) Arvind Kumar (No. 14382060N now JC-
270722N), 02 Aug 2007/01 Aug 2007*

Hav (Cik) Kashmir Singh (No. 14485135A now JC-
270723W), 01 Aug 2007

Hav (Cik) Sunil Kumar Pathania (No. 14486297X now
JC-270724Y), 01 Aug 2007

Hav (Cik) Sohan Lal (No. 14374103H now JC-270725F),
01 Aug 2007

Hav (Cik) Loknatha Swain (No. 14374256M now JC-
270726K), 01 Aug 2007

Hav (Cik) Bikaram Bahadur Singh (No. 14374908A now
JC-270765H), 01 Aug 2007

Hav (Cik) Som Nath Pandey (No. 14382110N now JC-
270727M), 01 Aug 2007

Hav (Skt) Mohan Narayan Ghatol (No. 14385097A now
JC-270728P), 02 Aug 2007/01 Aug 2007*

Hav (Skt) Hari Shankar Singh Chauhan
(No. 14385123W now JC-270729X), 01 Aug 2007

Hav (Cik) Netrapala Singh Yadav (No. 14495093M now
JC-270766L), 01 Sep 2007

Hav (Cik) Sudesh Singh (No. 14382149A now JC-
270730M), 01 Sep 2007

Hav (Cik) Ram Kumar Keer (No. 14495112M now JC-
270834N), 01 Sep 2007

Hav (Cik) Shravan Singh Chundawat (No. 14495114X
now JC-270767N), 01 Sep 2007

Hav (Cik) Om Singh (No. 14495115A now JC-270731P),
01 Sep 2007

Hav (Cik) Anil Kumar (No. 14495121N now JC-
270835W), 01 Sep 2007

Hav (Cik) Govind Singh Chhetri (No. 14495123Y now
JC-270768W), 01 Sep 2007

Hav (Cik) Vinod Kumar Singh (No. 14495139K now JC-
270836Y), 01 Sep 2007

Hav (Cik) Ashok Kumar (No. 14382429N now JC-
270732Y), 01 Sep 2007

Hav (Clk) Abhijit Nath (No. 14382786W now JC-270769Y), 03 Sep 2007/01 Sep 2007*

Hav (Clk) Sadhu Ram (No. 14382824F now JC-270770N), 01 Sep 2007

Hav (Clk) Laxmi Shankar (No. 14378599A now JC-270733A), 01 Sep 2007

Hav (Skt) Suresh Kumar Jalodia (No. 14385289X now JC-270837F), 01 Sep 2007

Hav (Clk) Anukul Chandra Sikder (No. 14489373K now JC-270838K), 01 Oct 2007

Hav (Clk) Iqbal Singh (No. 14495287P now JC-270839M), 01 Oct 2007

Hav (Clk) Shailendra Kumar (No. 14383294K now JC-270840F), 01 Oct 2007

Hav (Clk) Narain Singh (No. 14495461W now JC-270841K), 01 Oct 2007

Hav (Clk) Daya Shanker Rai (No. 14495465M now JC-270842M), 01 Oct 2007

Hav (Clk) Umesh Prasad (No. 14383305LK now JC-270843P), 01 Oct 2007

Hav (Clk) Jaiveer Singh (No. 14383307W now JC-270844X), 01 Oct 2007

Hav (Clk) Ram Krishna (No. 14383313K now JC-270845A), 01 Oct 2007

Hav (Skt) Kala Hasti Venkataratnam (No. 14365557P now JC-270846H), 06 Sep 2007/01 Sep 2007*

Hav (Skt) Ram Prakash Yadav (No. 14482932A now JC-270872K), 01 Oct 2007

Hav (Clk) Kamal Kumar Majumder (No. 14495592F now JC-270847L), 01 Oct 2007

Hav (Clk) Raj Bahadur (No. 14495598H now JC-270848N), 01 Oct 2007

Hav (Clk) Ram Gopal Pandey (No. 14383322L now JC-270849W), 01 Oct 2007

Hav (Clk) Vijai Shanker Ram Gupta (No. 14495606W now JC-270850L), 01 Oct 2007

Hav (Clk) MD Gahar Ali Biswas (No. 14383327K now JC-270873M), 01 Oct 2007

Hav (Clk) Dinesh Chand (No. 14383330K now JC-270851N), 06 Oct 2007/01 Oct 2007*

Hav (Skt) Prabhu Datt Singh (No. 14385261X now JC-270874P), 01 Oct 2007

Hav (Skt) Neelapandhi Reddy (No. 14385737Y now JC-270852W), 01 Oct 2007

Hav (Skt) Hans Nath Chauhan (No. 14482817A now JC-270853Y), 01 Oct 2007

Hav (Skt) Sudarsanan Priyarath (No. 14479099K now JC-270854F), 01 Oct 2007

Hav (Skt) Athul IP (No. 14385749N now JC-270855K), 01 Oct 2007

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & alices)

To be Nb Sub

Hav Dnyandev Jotiram Modne (No. 14380839L now JC-270818W), 27 Jun 2007/25 Jul 2006*

Hav Parthasarathi N (No. 14397641H now JC-270819Y), 23 Feb 2007/07 Jan 2007*

Hav Janak Raj (No. 14375546W now JC-270820N), 22 Apr 2007/18 Feb 2007*

Hav Amarjit Singh (No. 14490934A now JC-270821W), 09 Jul 2007/03 Mar 2007*

Hav Tilak Raj (No. 14381808X now JC-270822Y), 20 Jun 2007/01 Apr 2007*

Hav Gurmail Singh (No. 14384356L now JC-270823F), 17 May 2007/26 Apr 2007*

BHM Subash Chandra Rout (No. 14377979M now JC-270824K), 12 Jun 2007/01 May 2007*

Hav Major Singh (No. 15102271X now JC-270825M), 18 Jun 2007/06 May 2007*

Hav Bhoop Singh Yadav (No. 14380737P now JC-270826P), 25 Aug 2007/01 Jun 2007*

Hav Jaybir Singh (No. 14476496X now JC-270827X), 19 Jul 2007/17 Jun 2007*

Hav Sriramulu V (No. 14389820N now JC-270828A), 16 Aug 2007/01 Jul 2007*

Hav Bheem Lal (No. 15118532K now JC-270829H), 08 Aug 2007/04 Jul 2007*

Hav Basappa Kajagar (No. 14482511X now JC-270830X), 01 Aug 2007

Hav Karatkar Krishnat Gorakhanath (No. 15102800Y now JC-270831A), 01 Aug 2007

Hav Bala Subramanian C (No. 14489420W now JC-270832H), 01 Aug 2007

BHM Chandra Malla George (No. 14393976H now JC-270833L), 29 Aug 2007/03 Aug 2007*

Hav Am Prakash Yadav (No. 14372267A now JC-270856M), 06 Aug 2007/24 Feb 2007*

Hav Krishna Kailash Mishra (No. 14370281N now JC-270857P), 03 Aug 2007/07 Jun 2007*

Hav Sayad Rafeek (No. 14405075L now JC-270858X), 25 Jul 2007/09 Jun 2007*

Hav Palve Narayan Namdeo (No. 14399161X now JC-270859A), 31 Jul 2007/01 Jul 2007*

Hav A Jacob Selvamoni (No. 15108304N now JC-270860P), 29 Aug 2007/18 Jul 2007*

Hav Virendra Singh (No. 14498999H now JC-270861X), 24 Sep 2007/01 Aug 2007*

Hav Ram Niwas (No. 14374700X now JC-270862A), 28 Sep 2007/01 Aug 2007*

Hav Babban Prasad (No. 14380107P now JC-270863H), 21 Sep 2007/01 Aug 2007*

Hav Jai Singh (No. 15109767P now JC-270864L), 21 Aug 2007/01 Aug 2007*

Hav Iqbal Singh (No. 14376558X now JC-270865N), 06 Sep 2007/01 Aug 2007*

Hav Narendra Kumar (No. 15118819F now JC-270866W), 01 Aug 2007

Hav Maddineni Sreenivasa (No. 14390290W now JC-270867Y), 20 Aug 2007/01 Aug 2007*

Hav Landge Hanmant Tulshi Ram (No. 14395368A now JC-270868F), 25 Aug 2007/04 Aug 2007*

Hav Munnu Lal (No. 14482144W now JC-270869K), 29 Sep 2007/17 Aug 2007*

Hav Ramkrit Singh Yadava (No. 14369398A now JC-270870Y), 01 Oct 2007/01 Sep 2007*

Hav Om Prakash (No. 14381440A now JC-270871F), 01 Oct 2007/01 Sep 2007*

Hav Gauri Shanker Singh (No. 14487533A now JC-270749L), 20 Jul 2007/26 May 2006*

Hav Aswini Kr Nath (No. 14377309L now JC-270750K), 13 Aug 2007/01 Jun 2007*

Hav Mangeet Singh (No. 3382886N now JC-270751H), 28 Mar 2007/15 Feb 2007*

Hav Chaman Singh (No. 14495496M now JC-270752L), 01 Jun 2007/01 Apr 2007*

Hav Vijaya Kumar EK (No. 14399356H now JC-270753N), 01 Aug 2007/22 Apr 2007*

Hav Venu N (No. 14490104K now JC-270754W), 19 Jun 2007/15 May 2007*

Hav Rajesh Kumar Dubey (No. 14484590W now JC-270755Y), 29 Jun 2007/01 Jun 2007*

Hav B Chandra Rao (No. 14398933X now JC-270756F), 01 Jun 2007

Hav Bal Krishan Yadav (No. 14397344P now JC-270757K), 01 Jun 2007

Hav Vinod Kumar (No. 14493076N now JC-270758M), 26 Jul 2007/01 Jun 2007*

Hav R Subramani (No. 14391095L now JC-270759P), 23 Jul 2007/03 Jun 2007*

Hav Gopinathan VK (No. 14485209K now JC-270760K), 10 Jul 2007/01 Jul 2007*

Hav Ram Chander (No. 14377204F now JC-270761M), 08 Jul 2007/01 Jul 2007*

RHM Mahabir Singh (No. 14365854H now JC-270762P), 01 Aug 2007

Hav Shinde Mohan Raja Ram (No. 14360705L now JC-270763X), 19 Aug 2007/01 Aug 2007*

RHM Gneesh Chandra (No. 14487287A now JC-270764A), 01 Aug 2007

BHM Balakrishnan Manthattil Vaisian (No. 14475349H now JC-270771W), 08 Jan 2007/01 Oct 2006*

Hav Sardar Singh Parmar (No. 14400098H now JC-270772Y), 16 Jul 2007/01 Nov 2006*

Hav Ghanmare Suresh Natthu (No. 15107229H now JC-270773F), 10 Jun 2007/30 Nov 2006*

Hav Saroj Kumar Pandey (No. 14498239A now JC-270774K), 30 Jul 2007/01 Jan 2007*

Hav Mohan Chandra (No. 14373837X now JC-270775M), 17 Aug 2007/01 Feb 2007*

Hav Tara Chand Sharma (No. 14373672K now JC-270776P), 01 Jul 2007/08 Apr 2007*

Hav Vijay Kumar (No. 14486737A now JC-270777X), 16 Aug 2007/30 Jun 2007*

Hav Ram Singh (No. 14488944L now JC-270778A), 16 Aug 2007/30 Jun 2007*

Hav Sevanand Yadav (No. 14366930W now JC-270779H), 01 Aug 2007/20 Jul 2007*

Hav Daleep Kumar (No. 14482748P now JC-270780X), 19 Aug 2007/20 Jul 2007*

Hav Ginni Rama Rao (No. 14483268X now JC-270781A), 14 Aug 2007/01 Aug 2007*

Hav Sanku Radha Krishna (No. 15111825M now JC-270782H), 01 Aug 2007

Hav Suman Singh Chauhan (No. 14393692Y now JC-270880H), 29 Sep 2007/14 Apr 2007*

Hav Avatar Singh (No. 14386093W now JC-270881L), 24 Sep 2007/01 Aug 2007*

Hav Rajendra Rai (No. 14374299F now JC-270882N), 27 Sep 2007/01 Aug 2007*

Hav Prabhjit Singh (No. 14385581M now JC-270883W), 08 Oct 2007/01 Aug 2007*

Hav Madhukar Nanu Khambe (No. 14497755H now JC-270884Y), 18 Sep 2007/01 Aug 2007*

Hav Shri Niwas Shukla (No. 14373852M now JC-270885F), 15 Sep 2007/01 Aug 2007*

BHM Raj Singh Malhan (No. 14485835N now JC-270886K), 30 Aug 2007/03 Aug 2007*

Hav Mohana Kumaran Nair G (No. 14370943L now JC-270887M), 03 Oct 2007/05 Aug 2007*

Hav Babu Lal (No. 14391671K now JC-270888P), 02 Oct 2007/13 Aug 2007*

Hav Narain Singh (No. 14493850X now JC-270889X), 03 Oct 2007/19 Aug 2007*

Hav Dharm Pal Singh (No. 14493427X now JC-270890M), 01 Oct 2007/01 Sep 2007*

Hav Dhanpati (No. 14482576L now JC-270891P), 01 Sep 2007

Hav G Rama Moorthy (No. 14484381Y now JC-270892X), 01 Sep 2007

Hav Hem Raj (No. 14403537N now JC-270893A), 03 Oct 2007/01 Sep 2007*

Hav Khushi Ram Yadav (No. 14376817P now JC-270894H), 10 Oct 2007/03 Sep 2007*

Hav Onkar Singh Bhadoria (No. 14396281L now JC-270895L), 01 Oct 2007

Hav Ravinder Singh (No. 14395227L now JC-270896N), 09 Apr 2007/01 Apr 2007*

Hav Surinder Mohan (No. 15112999Y now JC-270897W), 06 May 2007/01 Apr 2007*

Hav Satya Pal (No. 15100315L now JC-270898Y), 21 Sep 2007/26 Aug 2007*

RHM Takeshwar Singh (No. 15121124K now JC-270899F), 30 Sep 2007/27 Aug 2007*

RHM Linga Raju B (No. 14422736W now JC-270900L), 04 Oct 2007/27 Aug 2007*

RHM Khinya Ram (No. 14422644K now JC-270901N), 06 Oct 2007/27 Aug 2007*

Hav Satnam Singh (No. 15103939H now JC-270902W), 06 Sep 2007/01 Sep 2007*

Hav Manoj Kumar (No. 15112944P now JC-270903Y), 01 Oct 2007

RHM Pradeep D (No. 14402000H now JC-270904F), 17 Oct 2007/11 Oct 2007*

RHM Rajender Singh (No. 15116192N now JC-270905K), 17 Oct 2007/11 Oct 2007*

RHM Bhagat Singh (No. 14405251X now JC-270906M), 17 Oct 2007/11 Oct 2007*

RHM G Venkatesan (No. 14409544A now JC-270907P), 18 Oct 2007/11 Oct 2007*

RHM Ravi Kumar (No. 15126122H now JC-270908X), 17 Oct 2007/11 Oct 2007*

RHM Sukhvir (No. 15120600L now JC-270909A), 17 Oct 2007/11 Oct 2007*

RHM Surja Ram (No. 15122303W now JC-270910P), 17 Oct 2007/11 Oct 2007*

RHM Krishan (No. 14411296N now JC-270911X), 17 Oct 2007/11 Oct 2007*

*(Gtd Seniority wef)

CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Utam Chand (JC-296976H), 01 Nov 2007

To be Substantive Subedar Major (SKT)

Sub Kulwant Singh (JC-296603P), 01 Dec 2007

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Balbir Singh (JC-299379Y), 10 Sep 2007/24 Jul 2007*

Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-298730H), 11 Sep 2007/31 Jul 2007*

Nb Sub Dalip Singh (JC-299329N), 01 Sep 2007/31 Jul 2007*

Nb Sub Ramchander Singh Yadav (JC-299402F), 17 Oct 2007/31 Jul 2007*

Nb Sub Ranbir Singh (JC-298560K), 06 Oct 2007/01 Sep 2007*

Nb Sub Rajbir Singh (JC-298628A), 01 Sep 2007

Nb Sub Ram Niwash Swamy (JC-298209H), 29 Oct 2007/09 Sep 2007*

Nb Sub Ram Kewal (JC-299350W), 25 Oct 2007/09 Sep 2007*

Nb Sub Mahender Pal Singh (JC-298306A), 08 Oct 2007/16 Sep 2007*

Nb Sub Sumer Singh Takhar (JC-298861N), 01 Oct 2007

Nb Sub Ram Autar (JC-299072N), 02 Oct 2007

Nb Sub R Balasubramani (JC-298300Y), 01 Nov 2007

Nb Sub Chandra Bhan Gour (JC-298410N), 01 Nov 2007

Nb Sub Madhan Chand (JC-298393Y), 01 Nov 2007

Nb Sub Ram Awtar (JC-298411W), 12 Nov 2007/01 Nov 2007*

Nb Sub Shinewas Thakur (JC-298741P), 01 Nov 2007

Nb Sub Shibraj Singh (JC-299051X), 01 Nov 2007

Nb Sub Anuj Kumar (JC-299464F), 01 Nov 2007

Nb Sub Shiv Prasad (JC-299469A), 01 Nov 2007

Nb Sub Dinesh Tiwari (JC-298152Y), 01 Dec 2007

Nb Sub Raj Singh (JC-298715N), 01 Dec 2007

Nb Sub Budh Singh (JC-298842H), 01 Dec 2007

Nb Sub Ramphool Singh (JC-299014K), 03 Dec 2007/
01 Dec 2007*

Nb Sub Prasad P (JC-299472A), 01 Dec 2007

To be Substantive Subedar (TIFC)

Nb Sub Bined Singh Rathaur (JC-299237F), 01 Sep
2007/14 Aug 2007*

Nb Sub Tarun Kumar Banerjee (JC-299502M), 07 Sep
2007/14 Aug 2007*

Nb Sub Manoj Kumar (JC-299436P), 01 Nov 2007

Nb Sub Vijay Kumar Singh (JC-299428W), 06 Nov 2007/
01 Nov 2007*

Nb Sub Sunil Kumar (JC-299430N), 01 Nov 2007

Nb Sub Narendra Kumar (JC-299431W), 04 Nov 2007/
01 Nov 2007*

Nb Sub Rahiem Khan Pathan (JC-299432Y), 01 Nov
2007

Nb Sub Dharmendra Pratap Singh (JC-299433F), 01 Nov
2007

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Dinesh Kumar Semwal (JC-297941Y), 01 Dec
2007

To be Substantive Subedar (CLK)

Nb Sub Tapas Kumar Mallik (JC-298719K), 01 Dec 2007

To be Substantive Subedar (SKT)

Nb Sub Janardan Singh (JC-298652W), 01 Nov 2007

Nb Sub Narendra Pal Singh (JC-298570N), 01 Dec 2007

Nb Sub Biswa Mohan Sarkar (JC-298571W), 01 Dec
2007

*(Gtd ante-date seniority wef)

P RAMA SASTRY
Under Secy.

No. 85, dated 1st February 2008.—The President is
pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)

IC-37792H Lt Col Ravinder Singh, Inf—29 Apr 2007

IC-37798K Lt Col AD Sanganagouda, Int—12 Nov 2007

IC-38498P Lt Col Sunil Soni, Inf—22 Dec 2005

IC-39021H Lt Col Inderjeet Singh, AOC—07 Jun 2006

IC-39613W Lt Col Satinder Singh Toor, AC—13 Jun
2007

IC-39850A Lt Col Anupam Shukla, Engrs—13 Jun 2005

IC-39852L Lt Col Inder Mohan, AEC—13 Jun 2007

IC-41059P Lt Col Rajvir Singh, EME—24 Dec 2006

IC-38385M Lt Col ML Jangid, AAD—22 Dec 2005

IC-38638W Lt Col Avinash Zope, Engrs—16 Dec 2004

IC-39300X Lt Col AV Deshmukh, Arty—13 Dec 2006

IC-39460X Lt Col SD Sarin, AC—13 Jun 2007

IC-39483Y Lt Col Purojit Roy, Inf—13 Jun 2007

IC-39511A Lt Col AK Prasad, Inf—13 Jun 2007

IC-39524X Lt Col Prashanth Kumar, Arty—13 Jun 2007

IC-39543H Lt Col NS Lamba, AOC—13 Jun 2007

IC-39547Y Lt Col TC Dahiya, Int—13 Jun 2007

IC-39549K Lt Col Nasib Singh, Inf—13 Jun 2007

IC-39578Y Lt Col Abhaya Prakash, Arty—13 Jun 2007

IC-39595Y Lt Col OP Chaudhary, AC—13 Jun 2007

IC-39619X Lt Col JP Sahoo, Inf—13 Jun 2007

IC-39631Y Lt Col AR Sarkar, Arty—13 Jun 2007

IC-39635P Lt Col AR Thapan, Arty—13 Jun 2007

IC-39639L Lt Col RS Ahiwalia, ASC—13 Jun 2007

IC-39641H Lt Col Md Amanullah, AAD—13 Jun 2007

IC-39658W Lt Col Michael Thayil, Inf—13 Jun 2007

IC-39659Y Lt Col SR Choudhury, Engrs—13 Jun 2007

IC-39663F Lt Col Deen Dayal, Mech Inf—13 Jun 2007

IC-39670X Lt Col Manvendra Mehta, AC—13 Jun 2007

IC-39684X Lt Col BP Singh Kushwaha, AC—13 Jun
2007

IC-39692W Lt Col Kumar Sharma Shah, Inf—13 Jun
2007

IC-39694F Lt Col Rajiv Chum, Inf—13 Jun 2007

IC-39711W Lt Col Murti Nair, AOC—13 Jun 2007

IC-39714K Lt Col PK Bathla, AOC—13 Jun 2007

IC-39719H Lt Col Shailesh Panchlochia, Inf—13 Jun
2007

IC-39723L Lt Col NPS Mann, Guards—13 Jun 2007

IC-39744F Lt Col Girish Kamat, Inf—13 Jun 2007

IC-39764P Lt Col Ashok Kumar, Inf—13 Jun 2007

IC-39765X Lt Col R Mathur, EME—13 Jun 2007

IC-39785L Lt Col Vijay Kumar, Arty—13 Jun 2007

IC-41455L Lt Col TV Subba Rao, Engrs—18 Jun 2007

IC-41460W Lt Col RNP Singh, EME—18 Jun 2007

IC-36268H Lt Col SP Tavamani, Inf—16 Dec 2004

Majors to be Substantive Lt Col (Time Scale)

IC-42210 Maj CB Sharma, Inf—09 Jun 2004

AJAY GOEL
Dy Director
MS-8A

No. 86, dated 1st February 2008.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Capt to be Major

SS No., Name, Arm, Course, Revised date of seniority for promotion and Subs Major wef

SS-38995 Aman Tara, AC, SSC-71 (NT), 03 Nov 2001—03 Nov 2007

SS-39014 Vijay Singh Chauhan, Inf, SSC-71 (NT), 03 Nov 2001—03 Nov 2007

SS-39028 Sourabh Sharma, Inf, SSC-71 (NT), 03 Nov 2001—03 Nov 2007

SS-39038 Devendra Kumar Singh, Inf, SSC-71 (NT), 03 Nov 2001—03 Nov 2007

SS-39053 Shaji K, AOC, SSC-71 (NT), 03 Nov 2001—03 Nov 2007

SS-39075 Mayank Dubey, Inf, SSC-71 (NT), 03 Nov 2001—03 Nov 2007

SS-39088 Cardozo Andre, Inf, SSC-71 (NT), 03 Nov 2001—03 Nov 2007

SS-39094 Sumedh Kumar, Inf, SSC-71 (NT), 03 Nov 2001—03 Nov 2007

SS-39101 Rajesh Gurung, Engrs, SSC-71 (NT), 03 Nov 2001—03 Nov 2007

SS-39109 Ashish Malik, AOC, SSC-71 (NT), 03 Nov 2001—03 Nov 2007

SS-39112 Anirbh Mehta, AC, SSC-71 (NT), 03 Nov 2001—03 Nov 2007

SS-39121 Praveen Sharma, Arty, SSC-71 (NT), 03 Nov 2001—03 Nov 2007

SS-40249 Parvit Kumar Siwach, EME, SSC-19 (T), 06 Nov 2001—06 Nov 2007

SS-40260 Bhupender Singh Grewal, EME, SSC-19 (T), 06 Nov 2001—06 Nov 2007

SS-40261 Vikram Birra, EME, SSC-19 (T), 06 Nov 2001—06 Nov 2007

JASWANT SINGH
Jt Dir.
MS-8C

No. 87, dated 31st January 2008.—The President is pleased to make the following promotion:—

TERRITORIAL ARMY TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj Shailendra Kumar Sharma (TA-42018), Engr—16 Dec 2004

JAI RAJ
Under Secy.

DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION

No. 88, dated 30th January 2008.—The President is pleased to make the following promotions:—

Smt. Poornima Bhargava, STA-I, CQAE (WS), Mumbai to be JSO at HQ DQA (N), New Delhi wef 21 Aug 2006 (F/N).

Shri VC Pant, JTO (N), CQAE (WE), Bangalore to be JSO at QAE (WE), Bangalore wef 21 Jul 2006 (A/N).

Shri Joseph Sequeira, JTO, CQA (R), Bangalore to be JSO insitu wef 14 Jul 2006 (F/N).

Shri SK Saxena, JTO, Dir of Standarsation, New Delhi to be JSO at SQAE (L), New Delhi wef 17 Jul 2006 (F/N).

Shri HS Pambal, JTO, SQAE (L), Mumbai to be JSO at QAE (UB), Mumbai wef 29 Jun 2007 (F/N).

Smt. RK Saroja, JTO, CQA (L), Bangalore to be JSO insitu wef 14 Jul 2006 (F/N).

Shri Chandrashekar V, JTO, CQA (L), Bangalore to be JSO insitu wef 14 Jul 2006 (F/N).

Shri R Veeranna, JTO, SQAE (L), Bangalore to be JSO at CQA (R), Bangalore wef 27 Nov 2006 (F/N).

Smt. Gowri Rajendran, JTO, CQA (L), Bangalore to be JSO insitu wef 19 Jan 2007 (F/N).

Shri VK Taneja, STA-I, HQ DQA (N), New Delhi to be JSO insitu wef 19 Jul 2006 (F/N).

Shri Hanuman Prasad, STA-I, HQ DQA (WP), New Delhi to be JSO at QAE (WP), Mumbai wef 25 Jul 2006 (F/N).

Shri TK Das, JTO (N), QAE (EFS), Mumbai to be JSO at CQAE (MS), Mumbai wef 24 Jul 2006 (F/N).

Shri YK Shaga, JTO, CQA (V), Ahmednagar to be JSO at CQA (FHE) Pune wef 23 Apr 2007 (F/N).

Shri ME Ravindran, JTO, CQA (EE), Pune to be JSO insitu wef 01 May 2007 (F/N).

Shri RK Sathena, JTO, CQA (EE), Pune to be JSO at CQAE (WS), Mumbai wef 08 Feb 2007 (F/N).

Shri SS Sonawane, JTO, CQA (SV), Dehu Road to be JSO at CQAE (MS), Mumbai wef 15 May 2007 (F/N).

Shri SB Kulkarni, JTO, CQA (EE), Pune to be JSO at CQAE (MS) Mumbai wef 27 Feb 2007 (F/N).

Shri N Nagarathinam, JTO, SQAE (V), Chennai to be JSO at SQAE (V), KGF wef 01 Mar 2007 (F/N).

Shri N Mallik, JTO, SQAE (GS), Kolkata to be JSO at CQA (T&C), Kanpur wef 25 Sep 2006 (F/N).

Shri SK Saha, JTO, SQAE (GS), Kolkata to be JSO at CQA (T&C), Kanpur wef 01 Sep 2006 (F/N).

Shri PK Nanda, JTO, SQAE (GS), New Delhi to be JSO at CQA (GS), Kanpur wef 05 Feb 2007 (F/N).

Shri SP Singh, JTO, SQAE (GS), Kanpur to be JSO in situ wef 17 Jul 2006 (F/N).

Shri N Senthil Kumar, JTO, SQAE (GS), Chennai to be JSO in situ wef 14 July 2006 (F/N).

Shri SK Bhattacharya, JTO, SQAE (GS), Kolkata to be JSO in situ wef 20 Jul 2006 (F/N).

Shri BD Maurya, JTO, SQAE (GS), Mumbai to be JSO in situ wef 14 July 2006 (F/N).

Shri Kishuna Lal, JTO (S), SQAE (GS), Mumbai to be JSO in situ wef 21 Sep 2006 (F/N).

Shri PK Raipartwar, JTO, SQAE (A), Jabalpur to be JSO at QAE (W), Ambarnath wef 18 Aug 2006 (F/N).

Shri V Krishna Swamy, JTO, CQA (W), Jabalpur to be JSO in situ wef 31 Jul 2006 (F/N).

Shri Martin Xaxa, JTO, CQA (W), Jabalpur to be JSO at SQAE (A), Tiruchirapalli wef 23 Sep 2006 (F/N).

Shri S Bhattacharjee, JTO, DSC, Ichapur to be JSO at SQAE (SA), Ichapur wef 17 Aug 2006 (F/N).

Shri SPP Walkar, JTO, QAE (A), Varangaon to be JSO in situ wef 19 Jan 2007 (F/N).

Dr. L. Prasad, JTO, SQAE (A), Chandrapur to be JSO at CQA (ME), Pune wef 20 Feb 2007 (F/N).

Shri VS Sagar, JTO, CQA (I), Dehradun to be JSO in situ wef 01 Aug 2006 (F/N).

SUBHASH CHAND
Under Secy.

NATIONAL CADET CORPS

No. 89, dated 31st January 2008.—The President is pleased to grant the following selection in the rank of Lieutenant from the date mentioned below against the name of the officers. Relative seniority in the Rank will be as indicated against officers name below:—

NCC WHOLE TIME LADY OFFICERS

(PERMANENT COMMISSIONED-LIEUTENANT)

No., Rank and Name of the Offr, Date of Commission and Date of Birth

NCC/GD/PC-12506 Lt Farah Deeba, 05 Jul 02, 05 Mar 74

NCC/GD/PC-12507 Lt Palaboina Surekha Rao, 08 Jul 02, 08 Aug 69

NCC/GD/PC-12508 Lt Savita Chillar, 02 Jul 02, 15 Mar 70

NCC/GD/PC-12509 Lt Deepti, 29 Jun 02, 22 Dec 76

NCC/GD/PC-12510 Lt Kulbinder Kaur Sandhu, 27 Jun 02, 02 May 76

NCC/GD/PC-12511 Lt Deepa Chandrasekaran, 08 Jul 02, 30 Jul 76

NCC/GD/PC-12512 Lt Nivedita Mishra, 08 Jul 02, 04 Jan 74

NCC/GD/PC-12513 Lt Rajitha Divakaran, 01 Jul 02, 24 Sep 73

NCC/GD/PC-12515 Lt Mahuwa Bhattacharjee, 04 Jul 02, 27 Oct 73

NCC/GD/PC-12516 Lt Parvin Mansurali Budhwani, 08 Jul 02, 15 Jul 75

NCC/GD/PC-12517 Lt Hemaxi Ramanlal Rathod, 08 Jul 02, 22 Dec 75

NCC/GD/PC-12518 Lt Kavita Dahyabhai Italian, 27 Jun 02, 17 Sep 76

NCC/GD/PC-12519 Lt Meenakshi, 02 Jul 02, 08 Jan 76

NCC/GD/PC-12520 Lt Reena Goswami, 08 Jul 02, 16 Aug 76

NCC/GD/PC-12521 Lt Langam Ranjana Devi, 08 Jul 02, 01 Apr 71

NCC/GD/PC-12522 Lt Manju R, 08 Jul 02, 01 Nov 74

NCC/GD/PC-12523 Lt Narinder Kaur, 02 Jul 02, 04 Feb 73

NCC/GD/PC-12524 Lt Muthera Jamal, 15 May 03, 17 Feb 72

NCC/GD/PC-12525 Lt Gandham Sripriya, 08 Jul 02, 25 May 75

NCC/GD/PC-12526 Lt Subodh Shanwal, 30 Apr 03, 17 Jul 73

P. C. ROY
Col
Director (MS)

AIR BRANCH

No. 90, dated 1st February 2008.—The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission and grant Short Service Commission (on probation) to the undermentioned U/T officer wef the date mentioned against her name under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/ PP(O)/PC-1/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

U/T OFFR TO BE FG OFFR

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Asha Chikanna (28365), wef 17 Dec 05.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned U/T officer wef

the date mentioned against her name under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Asha Chikkanna (28365), wef 05 Jan 05

N VIJAY KUMAR

Wg Cdr

JDPO-3(D)

FINANCE DIVISION

NOTIFICATION

No. 91, dated 29th January 2008.—The President is pleased to retire Shri S. L. S. Himanshu, Director (Finance), Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 31.01.2008 (AN) on his attaining the age of superannuation.

R. C. MEENA

Asstt. Financial Adviser (E)

ARMY BRANCH

No. 92, dated 31st January 2008.—The President is pleased to permit the under mentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform:—

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Lt Col Shailendra Kumar Sharma (TA 42018), Engr—31 Jul 06

JAI RAJ

Under Secy.

No. 93, dated 1st February 2008.—The President is pleased to permit the under mentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement as their own request for their personal reasons:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC-31329 Col (TS) Parminderjit Singh Grewal, Mech Inf, 02 Aug 2006 (AN)

IC-31151 Col (TS) Batra Suresh Kumar, Arty. 08 Feb 2007

IC-44911 Col Dobhal Rajeev, Sigs—31 Mar 2007 (AN)

IC-30422 Col MV Moogi, Sigs—30 May 2006 (AN)

SL-2704 A/Col NM Karthik, Engrs—11 Oct 2005 (AN)

IC-40686 Col KAV Bhaskar, Engrs—10 Apr 2007 (AN)

IC-34698 Col Chawhan Chandra Kant, Engrs—25 May 2007 (AN)

IC-41886 Col Gohinder Singh Grewal, Engrs—22 Apr 2007 (AN)

IC-34447 Col Sudeep Roy, AOC—31 Oct 2005 (AN)

IC-42328 Col Arvind Ganguly, AOC—13 Aug 2006 (FN)

IC-38490 Col (TS) Ashwani Kumar Anand, AOC—14 Oct 2006 (AN)

IC-35617 Col (TS) Rajinder Singh, AOC—14 Oct 2006 (AN)

IC-37472 Col Gurdeep Singh, AOC—02 Apr 2006 (AN)

IC-34431 Col Sunil Kumar Dhawan, AOC—15 Aug 2005 (AN)

IC-38019 Col C Ramachandran, AOC—15 Oct 2005 (AN)

IC-41763 A/Col Vishu Sikka, AOC—07 Jul 2005 (AN)

IC-35703 Col (TS) AP Rao, Int—08 Apr 2006 (AN)

IC-40211 Col CIO Marques, Int—04 Mar 2006 (AN)

S K CHAKRABORTY

Jt. Director

MS/PR

CORRIGENDUM

No. 94, dated 1st February 2008.—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 312 published on 25 Jan 2005 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Capt to be Maj" the following amendment is made:—

Against: IC-54793 Arvind Koul, Inf

For: 16 Dec 2004

Read: 06 Nov 2003

JASWANT SINGH

Jt. Dir.

MS-8C

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008